



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

घटना में संलिप्त दोनों अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद

दिनांक- 29.08.21

दिनांक 23.08.2021 को थाना रेउसा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रमुवापुर कालिका सिंह में गन्ने के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। जिसके शरीर पर धारदार चोट के निशान थे। इस सम्बन्ध में थाना रेउसा पर मु0अ0सं0 320/21 धारा 302/201भा.द.वि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी.सिंह द्वारा शीघ्रातिशीघ्र शव के शिनाख्त, घटना के अनावरण व संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट पर्यवेक्षण में टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम में मृतक की शिनाख्त सर्वेश पुत्र वेदराम निवासी ग्राम भिठना कलां थाना तम्बौर जनपद सीतापुर के रूप में हुई थी।

अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बिसवां के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर घटना में प्रकाश में आए संलिप्त दोनों अभियुक्तगण 1. पंकज पुत्र गनेश प्रसाद 2. मूलचन्द्र पुत्र प्यारेलाल निवासीगण ग्राम भिठना कलां थाना तम्बौर सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (बांका) बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान अन्तर्गत धारा 302/201/34 भा.द.वि. माननीय न्यायालय किया गया।

- पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 320/21 धारा 302/201/34 भादवि थाना रेउसा सीतापुर

- गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. पंकज पुत्र गनेश प्रसाद निवासी ग्राम भिठना कलां थाना तम्बौर सीतापुर
2. मूलचन्द्र पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम भिठना कलां थाना तम्बौर सीतापुर

पुलिस टीम थाना रेउसा -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बाल कृष्ण मिश्रा
2. व0उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र
3. का0 महेन्द्र प्रताप
4. का0 आशीष कुमार
5. का0 धर्मेन्द्र कुमार
6. का0 निखिल कुमार
7. महिला आरक्षी प्रीती ठाकुर